



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS 1921 - 2021

Biomedical Waste Management Sanitary Napkin Disposal Machine Incinerator Bills

HARCOURT BUTLER TECHNO STOCK

GH-IV

Name of Article Sanitary Napkins Incinerator machine with (SCU) Smoke Control unit.

Year -> 2021-22

RECEIPT PARTICULARS

Date of Receipt	Challan No. & Date	Bill No. & Date	From whom received	Quantity Received	Rate Rs. P.	Value Rs. P.
1	2	3	4	5	6	7

Quantity after Stock at the time of first receipt

16.04.2021 Tax Invoice No. 1
Date: -> 15.04.2021
M/s Maa Lakshmi Chemicals & allied products
128/3/59E, Yashoda Nagar,
Kanpur Nagar, U.P. - 208011.

Goods received in the Central Store from the party on 16.04.2021

① Sanitary Napkins Incinerator machine with (SCU) Smoke Control unit
Model: -> Core free 739/
Brand: -> Elevate info System
4 unit ✓ 18,516 = 10 74,064 = 40

P.O. (i) Gem Contract No. :
GEMC-511687793745604
Date: -> 31.03.2021 ✓

(ii) Gem Article Process order
Ref. No. 493/CSSR/DSW/2021
Date: - 31.03.2021 ✓

Rate: -> (Rs. 21,016 = 200 Each with GST)

Note: -> Tax Invoice received in the Central Store from DSW office on 12.07.2021.

Total Rs. 74,064 = 40
Add: CGST @ 9% @ Rs. 6,665 = 80
Add: SGST @ 9% @ Rs. 6,665 = 80

Grand Total Rs. 87,396 = 00

12.07.2021



Biomedical Waste Management

Sanitary Napkin Disposal Machine Incinerator Bills

LOGICAL INSTITUTE, KANPUR
BOOK

64

Rate

Position Receipt TOTAL Quantity (5+8)	AND AFTER ISSUE		ISSUE DETAILS				
	Quantity Issued	Quantity in balance	To whom Issued	Reference to requisition Slip	Date of Issue	Signature of Store keeper	Remarks
9	10	11	12	13	14	15	16

01 Unit	03 Unit	04 Unit	Transferred to TEL → C.S.B. of GH-I (Alakranda Hostel)				Page No. 205
01 Unit	02 Unit		Transferred to TEL C.S.B. of GH-III (Gangotri Hostel)				Page No. 206
01 Unit	01 Unit		Warden GH-IV (Bhagirathi Hostel)	57/94	15.06.2021		Page No. 207
01 Unit	NIL		Transferred to TEL → C.S.B. of GH-II (Mandakini Hostel)				Page No. 174



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in



Biomedical Waste Management: Sanitary Napkin Disposal Machine Incinerator Bills

Ret No 16/CS/2021 Date 07.06.2021

TAX INVOICE

Maa Lakshmi Chemicals & allied Products
 128/3/59E, Yashoda Nagar, Kanpur
 GSTN: 09AIAPM5956D1Z7
 email : maalakshmicchemicals191@gmail.com

020/DSW *Original Copy*
Tax Invoice received in the office of DSW on 12.07.2021
Goods received in the central store from the party on 16.04.2021

Invoice No. : 1	Place of Supply : Uttar Pradesh (09)
Date of Invoice : 15-04-2021	Reverse Charge : N
Billed to : Professor HBTU Kanpur Paying Officer: Finance Controller HBTU Nawabganj Kanpur	Shipped to : HODFT/Professor Paying Officer: Finance Controller HBTU Nawabganj Kanpur GEMC-511687793745604 Dt.31.3.2021
GSTIN / UIN : 09AAALH0730N1Z2	GSTIN / UIN : 09AAALH0730N1Z2

S.N.	Description of Goods	HSN/SAC Code	Qty.	Unit	Price	Amount(₹)
1	Sanitary Napkins Incinerator With SCU <i>Sanitary Napkins Incinerator Machine With Smoke Control Unit</i> <i>Care Free 7391</i> <i>ELEVATE INFO SYSTEMS</i>	8417	4.00	Units	18,516.10	74,064.40
Add : CGST @ 9.00 % 6,665.80 Add : SGST @ 9.00 % 6,665.80						74,064.40
Grand Total ₹						87,396.00

08.02.2021
 Certificate that V.C.S. Sanction dated 08.02.2021 exists
 In The File No. DSW Page 02 of DSW
 Rates are according to approved Quotation/Notification

07.06.2021
 (Dr. S. K. Sharma)
 Incharge
 Central Store & Purchase
 H.B.T.U., Kanpur

07.06.2021
Rajiv

Tax Rate	Taxable Amt.	CGST	SGST	Total Tax
18%	74,064.40	6,665.80	6,665.80	13,331.60

Rupees Eighty Seven Thousand Three Hundred Ninety Six Only

Bank Details : Bank Of Baroda, Branch: Govind Nagar, Kanpur
 Ifsc: BARBGOVIND A/c.No. 31600200000627

Terms & Conditions
 E & O.E
 1. Goods once sold will not be taken back.
 2. Interest @ 18% p.a. will be charged if the payment is not made with in the stipulated time.
 3. All disputes subject to 'KANPUR' Jurisdiction only.

Receiver's Signature :

For Maa Lakshmi Chemicals & allied Products

Authorised Signatory

Entered in C.S.B Page No. 64
 (T&C) S.B. of Govind Nagar
 Verified by O/I Central Stores

(D.A.) (T.A.) (O/I Central Stores)
12.07.2021 *12.07.2021*

P.T.O.



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

E-Waste Management

(Auctioned through authorized vendors)

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

KANPUR - 208002

Against Disposal Tender Notice - 10/2018

Lot No. 03

Department- C.S.E. Deptt.

1. Name of Tenderer with Address -

Royal International
9/11 Heera men Ka purwa Kanpur

2. List of Obsolete/Unserviceable Articles

Sl no.	Particular of items	Qty
1	1.a (I) Core switch Biglron B15000/A foundry 15 Slot Chasis Switch with 7 Play Load Slots after 2 Supervisor Engines/Switch Fabric Management Cards and power Supply, SI.No.- SA 21060019,Make-D-Link	1 No. 1 No. 2 Nos.
	1.a.(II) Big iron B 15000/foundry Redundant Power Supply, SI.No.-QC3206000P,Make-D-Link	
	(1.b.) J-BXJMR4/Foundry,8-Port 1000 base-X (Mini-GBIC) BiglronJetCore Management Module (For 1.C) , SI.No.-(I) CH14060210,(II) CH14060218,Make-D-Link	12 Nos.
	(1.C.) SX Tranceiver (DEM-311GT)/D-Link-10000 base SX Tranceiver (Mini-GBIC) SI.No.- (I) E 60 B 16A 000123 (II) E 60 B 16A 000135 (III) E 60 B 16A 000207 (IV) E 60 B 16A 000136 (V) E 60B 16A 000129 (VI) E 60B 16A 000128 (VII) E 60B 16A 000209 (VIII) E 60B 16A 000184 (IX) E 60B 16A 000177 (X) E 60B 16A 00023 (XI) E 60B 16A 000185 (XII) E 60B 16A 000208	03 Nos.
	(1.d.) I-B16GC/Foundry,16 Port 100/1000 Base T (RJ45) big Iron Jet Core Module (16x3=48 Nos. Ports) SI.No.-(I) CH37060911, (II) CH 37060931,(III) CH37060921	
2	Passive Component Sliding Tray type,rack mount fiber termination shelf, DFBOX24RXXX,(LIU) with option of 12 coupler plate along with cover	2 Nos.
	SC Connectors MM (OM3), SC Connectors,DFCO SCXMPR09/, Make-D-Link	36 Nos.
	Couplers,Make-D-Link	36 Nos.

अमान सिंह
For Royal International
Shahbaj
Proprietor
- 18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

SC-LC 3M,MMOM3,duplex fiber Patch Cord (Second end being Complatable with fiber module On Switch being Offered),DFPCD3SCLCO3/,Make-D-Link	3 Nos.
SC-LC 3M,MMOM3,duplex fiber Patch Cord (Second end being Complatable with fiber module On Switch being Offered),DFPCD3SCLCO3/,Make-D-Link	14 Nos.
Patch cord(OFC) UTP cord624 port patch panel (Jack panel)	
Patch Cord 9' (3 Meter), DC6PCURJ03GY/,Make-D-Link	5 Nos.
Patch Cord 3' (1M),DC6PCURJ01GY/D-Link	42 Nos.
Patch Cord 7' (2 Meter),DC6PCURJ02GY/D-Link	37 Nos.
3 Rack . 42U 800X800 MM Network with accessories make -val rack	1 No.
KVM Switches 1:4 with Cable,ATEN ,Make-CS-914/D-Link	2 Nos.
UPS 2 KVA On Line UPS With 2 hours backup time for Core switches & Servers (with 15 Nos. Of battery for each & one battery Rack for each,make-Uniline SI.No.(I) DLJ6055AA (II) DLJ6056AA	2 Nos.
Access switch,Layer 3: Ports+2 Nos. GBIC Ports,DES-3350SR/48 Ports10/100Mbps with 2 combo 1000 base-T/mini-GBIC Ports L3,Managed stackable,Switch,3 Year warranty Included,Make-D-Link SI.No.-DR6D16A000010	1 No.
Unmanaged switch,Layer 2:24 Ports 10/100 Unmanaged Rack mount switch,DES1024R+24 Port 10/100 Mbps unmanaged Rack mount switch,Make-D-Link SI.No.-DREL369000051,DREL369000046 3 Year warranty Included	2 Nos.
Outdoor wireless bridge DWL-2700AP on 802.11g supporting security Protocols SI.No.-P44W169000127	1 PAIR(02 No.)
4 SERVER	5 Nos.

समान लिट अर्थात
For Royal International
Shahba2 18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

	For proxy.mail,backup& director server(20/40 GB Internet base)	
	CPU	5 Nos.
	Monitor colour	5 Nos.
	Key Board	5 Nos.
	Mouse	5 Nos.
	Make HP	
	CPU- INI6120C8T,INI61104D3, SGH624X080,INI61104D9,INI6120C86	
	MONITOR-CNC6021BEG,CNC55109XV,CNC6260KKR,CNC6260193, CNC55209M3	
	USB-Wireless 11g Cords,DWL-GI22/D,Make--Link, SI.No.-(I) DR5A268005578 (II) DR5A268005572	2 Nos.
5	(A) SC-LC 3M,MMOM3,duplex fiber Patch Cord (Second end being Complatable with fiber module On Switch being Offered),DFPCD3SCLCO3/, Make-D-Link	4 Nos.
	(B) Mail server application related terminal id proxy control across two location from four gateways two gateways on in each computer for student v lan two gateways one in each campus for setting v lan (11 no cd)	1 Set.
6	Transceiver (DEM-311 GT)1000 Base SX Mini GBIC, Make-D-Link,SI.No.-E60B16A000181,E60B16A000191 LX Transceiver,(DEM-310GT),1000 Base(Mini GBIC) Make-D-Link,SI.No.-H60916A000168	2 Nos. 1 No.
	Access switch,Layer 3: Ports+2 Nos. GBIC Ports,DES-3350SR/48 Ports10/100Mbps with 2 combo 1000 base-T/mini-GBIC Ports L3,Managed stackable,Switch, Included,Make-D-Link SI.No.-DR6D16A000010	1 No.
7	Cisco Modular router 2XEE,2WAN SLOTS,32F1/128DR with 1 port serial wan Interface card V.35 cable DTE make 10 feet model Cisco 1841+WCIT+cab V35 MT.	1 No.
8	I/O with SMB Node Points ,Make-D-Link	7 Nos.
	Cat 6,24 Port Patch/Jack Panel with 1 U,DC6PP24UKY1U	8 Nos.
9	L.G. 1.0 Ton,A.C.,Model-LWA12CIAMI, SI.No.-8031PKW000717	1 No.
10	Access switch,Layer 2,48-Port 10/100 Mbps +2 Nos.GBIC Pack with 2 combo 1000 -T/mini-GBIC Ports L2 managed stackable switch DES-3550,Make-D-Link,	1 No.

श्रीमान अशोक कुमार
For Royal International
Shalber

Proprietor
12/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

Sl.No.	Description	Quantity
	Sl.No.-DR20368000623,	
11	1 KVA Off line UPS System with 30 min.backup item for access switch,Make-Uniline Sl.No.-2K6J625,2K6J633,2K6J636,2K6J622,2K6J656,2K6J615,2K7H1591	7 Nos
12	VOLTAS WINDOWS AC @ D G S & D RATE NOTIFICATION NO. WAC/AE-3/RC-11040000/ 0909/03/01589/1467 DT 8/4/09 S.NO. 4010070 PO9K000/98	1 No.
13	VOLTAS SPLET A C 1.5 TON VESTIS PLUS 3 STAR RATING WITH STBZ. I.D.S. NO 455115 4P10F005979 ODS NO. 4511171P10F010626	1 No.
14	SC-LC MM Fiber Patch Cord (DFPCD4LCSC-03) Dlink	2 Nos.
15	Screw driver set -1 Philips screw driver set(Tepco)-1 Hammer-2 Hacksaw frame(without blade)-1 Try Squarre-1 Vernier caliper-1 Centre punch-1 Measuring tape-1 Scissors(small)-2 Electronic plier set-3 Socket-wrench set-1 Socket wrench set-1 Rubbar mallat-2 Tweejers-2 Tweejers-2 Tweejers-2 Tweejers-2 Tool box-2 Steel rule-2 Instrument markers screw driver set-2 Offset screw driver set-2 Screw cutting set-1 Micrometer-1 Allen key set-1 Adjustable spanner-1 Adjustable bench vice-4 Bech vice-1 Circlip plier-1	1 No. 1 No. 2 Nos. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 2 Nos. 3 Nos. 1 No. 1 No. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 4 Nos. 1 No. 1 No.

24/07/19
For Royal International
Shahid

Proprietor
18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

	Twist drill set-1	1 No.
	Hand drill set-1	1 No.
	Needle file set-2	2 Nos.
	File brush-1	1 No.
	Screw Extractor set-1	1 No.
	Open ended spanner set metric-1	1 No.
	Screw holder-4	4 Nos.
16	Set of assembly tools accessory for electronic Indian origin	1 Set.
	Set of assembly tools for electronics jobs	
	1.allen	
	2.Mechanics knife set	1 Set.
	3.wrapping wire	
	4.filler guage no.230	1 Set.
	Service engineering tool	
17	Plato sheer	3 Set.
	Wire stripper & cutter	
	Long nose plier with fine teeth	
	Long nose pliae without teeth	
	Tweegersmooth,pointed items	
	Screw driver set	
	Magnifying glass	
	Knife	
	Bench brush	
	One set tool kit	
18	Usha water Cooler ,Model.No.-2040, Sl.No.-D2023F60044	1 No.
19	(I) Usha Brita water Purifior,Model-Ultra	1 No.
	(II) Steel Sink	1 No.
	(III)Instalation of water cooler intel pipe fitting with Ass.	1 No.
	(IV)Instalation of water purifior& Steel sink in let pipe & drain	1 No.
	Connection fitting	
20	Armless Computer Chairs with good Quality Plastic based with 5 legs on wheels with manual revolving mechanism, Size of seat- 16"x16"x2" and back 15"x12"x2" to be made of P.U. Cushion of high density the back to be attached with a flexible mechanism with Plastic cover.the seat hight can be adjustable upto minimum 5" good quality clother to be used on seat & back As per sample:	50 Nos.
21	3 Phase I/P-1 Phase O/P,40 KVAX2(32 KW) on line UPS system Parallel Redundant with separate battery bank 30 min,battery backup Period by SMF batteries (60 Nos.)	1 Set.

24/11/19
For Royal International
Shahbaz

Proprietor:
18/10/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in



	12V-40AH SMF batteries, Make-"CSB",UPS, Make-Uniline	
	60 Nos.,12V,40AH SMF battery Replaced with 60 Nos.,12V,65 AH, SMF Battery. (SI.No.As per CSB,V-II/ 64)	
22	Samsung CD Writer r/w s1/32/52/ 2444/2708 Sr.no. 52X32x52 6RCX201910 520GAV181991	1+1+1
23	DES -1008B- 8 port switch 10/100 mbps sr .no.0515B003201	1 No.
24	Server 1:9131 Model 52A	2 Nos.
	AIX Partition Specify	2 Nos.
	2048MB (2x1024MB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR	8 Nos.
	146.8GB 15000 RPM Ultra 320 SCSI Disk Drive Ass	4 Nos.
	POWER GXT 135P Graphics Accelerator with Digital	2 Nos.
	IDE Slimline DVD-ROM Drive	2 Nos.
	2-{prt ISN [CO Adapter	2 Nos.
	Rack Indicator-Not Factory Integrated	2 Nos.
	Software Preinstall	2 Nos.
	AC Power Supply, 850 W	2 Nos.
	Power Cord (9-foot), To Wall/OEM PDU, (250V, 16A)	2 Nos.
	Ultra 320 SCSI 4-Pack	2 Nos.
	IBM Rack Mount Drawer Rail Kit	2 Nos.
	IBM Rack Mount Drawer Bezel and Hardware	2 Nos.
	One Processor Entitlement for Processor Feature#	4 Nos.
	8314	2 Nos.
	Media Backplane Card	2 Nos.
	4-way 1.65 GHz, POWER5+Processor Card, 2x36MB	4 Nos.
	Zero-Ped Express Product Offering Processor Entitlet	2 Nos.
	Quiet Touch Keyboard-USB, Business Black, US Eng	2 Nos.
	Mouse-Bussiness Black with Keyboard Attachment C	2 Nos.
	Language Group Specify-US English	2 Nos.
	IBM XL C/C ++ Ent Edition Reg/Ren:1yr	2 Nos.
	Per User SW MAINT NC Charge 1YReg	2 Nos.
	System Software	2 Nos.
	Media 5765-G03 AIX 5L V5.3	2 Nos.
	Expansion pack	2 Nos.
	AIX 5L V5.3 Update CD *	2 Nos.
	Microcode Upd Files and Disc Tool CD	2 Nos.
	Preinstall 64-Bit Kernel	2 Nos.
	English Language	2 Nos.
	CD-ROM	2 Nos.
	Preinstall	2 Nos.
	English U/L SBCS Secondary Language	2 Nos.
	CD-ROM Process Charge	2 Nos.
	IBM XL C/C ++ Enterprise Edition V8.0	2 Nos.
	Per User with 1 Year SW Maintenance	2 Nos.
	Multilingual CD-ROM	

25/07/19
 For Royal International
 Shalika
 Proprietor
 18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

	Oracle 10G Standard Edition 1 For 40 Users License	1 No.
B.	Sr. No. are as per CSB page no.186 W/B-II	40 Nos.
25	CPU: INTEL Pentium-IV @3.2 GHz HT with 800 MHz	175 Nos.
	INTEL 915G Chipset with 1MB L@ Cache (Original)	
	512 MB DDR-2 Dual Channel RAM 400 MHz upgrad	
	Integrated (On Board) Intel Media Accelerator 900	
	1.44 MB FDD	
	80 GB SATA SMART III 7200 RPM with Pre Failure	
	OEM DVD Combo Drive	
	Integrated (On Board) 10/100/1000 MBPS Controller,.	
	Integrated (On Board) Audio controller with internal Speaker	
	HCL 15" TFT LCD Colour Monitor	
	HCL Optical Mouse	
	HCL PS/2 Keyboard with 104 Keys	
	2*PCI, 1*PCI Express, PCI Express 16x	
	1 Serial, 1 Parallel, 8 USB (Ver 2.0) with at least 2 Ports in front, VGA and 2 PS/Ports	
	Linux Preloaded, Minimum RHEL3 with certification	
	Intel specified prescott chassis with side ducts and 300 watt power supply	
	Security feature: BIOS level/Administrator Pawword/ Cabinet Lock facility for mouse and keyboard (Kensington slot on chassis)	
	BIOS with support for ACPI, DMI 2.0, Flash BIOS, Plug and Play, Intel Hyper Threading	
	Recovery Tool: Preloaded software tool that has provision for scheduled backup for restoring OS and Data	
	1 Year comprehensive warranty	
	Make: HCL	
	WLAN NIC 802.11g wireless PCI adapter.	60 Nos.
	Make. D-Link	
	Model No. DWL-G510	
26	Digital Imaging System with High Resolution Digital vision color camera, PCI frame grabber to interface with camera and single cable for power control and video, standard lense with tripod stand(Model EPIX SV1281C) software for capture, store and image processing & analysis for windows 2000/XP (Model EPIXSCAP-STD software) ID: VIWR/LMOU/GFIHS/MPIXCID2X10381	1 No.
27	HP Compaq Laptop Mobile Intel Core 2 Duo T5600(1.83 Ghz) 512MB/80GB/15"TFT/DVD-RW/X{Model HP Compaq (Nx6320) as per Dess notification No. LAPTOP/IT-1/RC-71020000/81/307/81DAO/69/6987 dt 22/05/2006 (CNU 735 22 HQ) with carry bag for laptop.	1 No.
28	HCL Infinite globe Server :	1 Set.
	Intel Xeon @ 2.8 GHz Processor Capable of Dual	
	Processing (supplied with single processor	

अज्ञान अज्ञान अज्ञान!
For Royal International
Shahbaz
Proprietor:
18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in



	standard) with 512KB L2 cache memory, Intel E 75010 EM mother board FSB 533 MHz, IPCI 32 bit and 4 PCI 64 bit 512MB 266 MHz DDR SD RAM upgradable upto 12GB on DIMM, 2x36 GB SCSI HDD controllar ultra 320 SCSI Dual channel 1.44 MHz Floppy Disk Drive internal / 101 keys keyboard/ digital auto tape drive 12/24 GB DAT with backup and disaster recovery/ 15" SVGA Digital colour monitor (supports 1024x786 NI Resolution) on board 8 GB Dynamic vedio memory/ scroll mouse with mouse pad/ 4 bags (2 External 2 Internal 2 USB ports 1 serial ports Tower /DMI 2.0 compliance / 52xCD ROM better / intigrated 10/100/1000 Network cord wake on lan /dual gigabitelan/ Screen blinking, Hard disk and system idle mode in power on password, setup password, power supply usage protected, auto- matic server hand reboot/ Energy star compliance Norton Antivirous (latest version)	
	1 b) Intel Xeon 2.8GHz Processor 533 MHz FSB	1 No.
	1 c) 1GB DDR SD RAM, 266 MHz in lieu of item 19 (iv)	1 No.
	1 d) Combo i.e. 16x10x40 CD R/W and 12xDVD together in lieu of item 1a(XIII)	1 No.
29	2.) Intel Pentium IV(4) @ 3.0 GHz with 512 KB L2 cache memory with Hyper threading technology and 800 MHz System Bus/Intel 865 GOEM mother board Integrated graphics 3PCI 81A GP, 128 MB 400 MHz Dual DDR RAM upgradable upto 4.0GB on DMM/ 4.0 GB Ultra DMA 1.0 HDD PCI Dual Channel Bus master/ 1.44 MHz Floppy Disk Drive internal/ 15" SVGA Digital colour monitor (support 1024x768 NI! resolution)/ 4 USB port, 1 serial, 1 parallel port, 104 keys keyboard multimedia Scroll mouse with mouse pad/ 4 bags (2 external & 2 internal)/ DMI 2.0 compliance and support/ 52xCD ROM /10/100/1000 Network cord with remote booting facility, Remote system manag- ment, remote shutdown and backup/ window XP Professional preloaded with media & document- ion and certificate of authenticity/ Energy star compliance, screen blanking hard disk and system idle mode in power on, setup password, power supply surge protected, Antivirus	12 Nos.
	2b) 17" colour Digital monitor 1024x768	12 Nos.

शुभान सिंह
For Royal International
Shahbaz
Proprietor
18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

	resolution in lieu of 15" monitor	
	2c) Combo i.e. 16x10x40 CD R/W and 12XDVD together in lieu of item 20(XIII)	12 Nos.
	2d) 256 MB DDR RAM 400 MHz in lieu of item 20(III)	12 Nos.
	2e) Linux Preloaded with media documentation in lieu of window XP Professional	12 Nos.
30	3 a) 24 port 10/100 Mbps switch Sl.no.97247517	1 No.
	3 b) Cat 6 cable (305 mtr. Box)	1 No.
	3 c) Laser jet printer 600 dpi x 600 dpi, Model HP 1160, Sl.No.CNCIB09360	1 No.
31	Ex.Revolving Chair	1 No.

3. Price offered for the lot Rs. $316100 + \text{Tax } 56098 = 372998$ total
(Rs. In words Three lac Seventy two thousand nine hundred ninety eight only)

4. We have gone through Tender documents & taken note of all terms & conditions mentioned therein and abide ourselves with the same.

For Royal International

Shahbaz
Proprietor

Signature

&

Seal of the Tenderer

शहबाज अहमद प्रियुष सिन्हा
For Royal International

Shahbaz
Proprietor

18/07/19



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

F10

निष्प्रयोज्य उपकरणों/सामानों के निस्तारण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जानी शेष है। जिनकी बुक वैल्यू तथा फ्लोर वैल्यू का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	विभाग/अनुभाग का नाम	बुक वैल्यू (रु० में)	फ्लोर वैल्यू (रु० में)
1	प्लास्टिक टेक0 विभाग, लिस्ट- II (लाट नं0 12-II)	11,77,794.00	71,800.00
2	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय (लाट सं0 14)	1,17,723.27	11,900.00
3	वेस्ट कैम्पस हास्टल-I (वर्तमान नाम- अब्दुल कलाम छात्रावास)	14,37,692.75	46,215.00
4	वेस्ट कैम्पस हास्टल-II (वर्तमान नाम- विश्वेशरैया छात्रावास)	6,45,515.26	1,00,863.00
	कुल योग	33,78,725.28	2,30,778.00

कृपया उपरोक्तानुसार आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० एस०के० शर्मा)
प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय भण्डार एवं क्रय
एच०बी०टी०यू०, कानपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति माहोदय के अवलोकसार्थ।

(डा० एस०के० शर्मा)
प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय भण्डार एवं क्रय
एच०बी०टी०यू०, कानपुर।



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर-208002, उ०प्र०, (भारत)

Harcourt Butler Technical University

Nawabganj, Kanpur-208002, U.P. (INDIA)

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone: +91-0512-2534001-5. Fax: +91-0512-2533812, Website: <http://www.hbtu.ac.in> E-mail: vc@hbtu.ac.in

संख्या: 154 / अदम / एच०टी०सी० / 2021

दिनांक : जून 29, 2021

समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / परीक्षा नियंत्रक /
अनुभाग प्रभारी, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।

विश्वविद्यालय में समस्त विभागों / अनुभागों में स्थित निष्प्रयोज्य उपकरणों / मशीनों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने अनुभाग / विभाग के ऐसे निष्प्रयोज्य उपकरणों इत्यादि की सूची संलग्न प्रारूप पर तीन कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि :

1. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(कुलसचिव)



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

Policy Regarding Disposal of Hazardous Chemical

Regarding hazardous chemicals disposal by our university, we contacted to Bharat Oil & Waste Management Ltd., Akbarpur, Kanpur Dehat UP, to collect all chemical hazardous waste material periodically. The company shall arrange to collect waste from HBTU Kanpur and it will go into their unit for proper treatment and final disposal as per prescribed norms. This unit is recognized by Uttar Pradesh Pollution Control Board. The process of signing MoU between HBTU and Bharat Oil & Waste Management Kanpur is under progress.

(Alak Kumar Singh)
Dean, School of Chemical Technology
HBTU Kanpur

Dated July 20, 2022



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

Liquid Waste Management

Application Regarding Payment of Water Tax and Sewer Tax Bills up to Rupees 74,65,193.00 for 10% discount (Year 2022-23).

(7-13) Proof for liquid-waste management
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन-6
जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

पत्रांक:- जलकल / 166 / अ0अ06 / 2022-23 दिनांक- 15.6.22
सेवा में,
कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
पता-1 / 303, 304, 305 ए0, 305 बी0, 305 सी0, डी0 ई0 एफ0 जी0
नवाब गंज
कानपुर।

विषय:- वर्ष 2022-23 के जलकर व सीवरकर के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संलग्न बिल के अनुसार आपके विभाग से सम्बन्धित परिसर पर वर्ष-31-03-2023 तक रू0-74,65,193.00 (चौहत्तर लाख पैसठ हजार एक सौ तिरान्बे मात्र) पत्र के साथ बिल संलग्न है। उक्त का भुगतान समयानुसार करने का कष्ट करे, ताकि 10 % सामयिक छूट का लाभ प्राप्त कर सके, साथ ही अवगत कराना है कि जलकल विभाग नगर निगम कानपुर का बैंक खाता विवरण निम्न है।

बैंक का नाम:- पंजाब नेशनल बैंक
ब्रान्च का नाम:- कानपुर जल संस्थान
खाता सं:- 2340010100001062
IFS CODE- PUNB0458700
ब्रान्च कोड- 458700
भाईकरकोड- 208024050

प्रतिलिपि:-
1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
2. बिलिंग प्राभारी जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
3. सम्बन्धित वसूलीकर्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

26/7
12/7
AE, maint
13.07.2022



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

Application Regarding Payment of Water Tax and Sewer Tax Bills up to Rupees 74,65,193.00 for 10% discount (Year 2022-23).

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन-6
जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

पत्रांक:- जलकल/ 166 / अ0अ06 / 2022-23
सेवा में,

दिनांक- 15.6.22

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
पता-1/303, 304,305,305ए0,305बी0,305सी0,डी0ई0एफ0जी0
नवाब गंज
कानपुर।

विषय:- वर्ष 2022-23 के जलकर व सीवरकर के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संलग्न बिल के अनुसार आपके विभाग से सम्बन्धित परिसर पर वर्ष-31-03-2023 तक रू0-74,65,193.00(चौहत्तर लाख पैसठ हजार एक सौ तिरान्बे मात्र) पत्र के साथ बिल संलग्न है। उक्त का भुगतान समयानुसार करने का कष्ट करे, ताकि 10 % सामयिक छूट का लाभ प्राप्त कर सके, साथ ही अवगत कराना है कि जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का बैंक खाता विवरण निम्न है।

बैंक का नाम:- पंजाब नेशनल बैंक
ब्रान्च का नाम:- कानपुर जल संस्थान
खाता सं:- 2340010100001062
IFS CODE- PUNB0458700
ब्रान्च कोड- 458700
माईकरकोड- 208024050

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
2. बिलिंग प्राभारी जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
3. सम्बन्धित वसूलीकर्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

AE, maint

13.07.2022
DEPUTY REGISTRAR

Water Tax and Sewer Tax Payment Bill

जलकल विभाग नगर निगम, बेनाझावर रोड, कानपुर- 208002
 DIR. OF H.B.T.I. KANPUR

जलकर, सीवर कर / न्यूनतम प्रभार / सावस खाजण / अन्य शुल्क का बिल कम नोटिस जल ही जीवन है
 जल बचायें

जोन नं० 6 वार्षिक मूल्यांकन 44442684 मीटर साइज / 15 बिल तिथि 16-07-2022 बिल सं० 711
 Sewer Seats: 0

वार्ड सं 45 खाता नं० धरेलू/अधरेलू/मिश्रित निर्माण / किरायेदारी ND6 देय तिथि 16-08-2022 प्रकार JKK60001004507322670
 PID No.

अवधि	जलकर (1)	न्यूनतम प्रभार जल (2)	सीवर कर (3)	न्यूनतम प्रभार सीवर (4)	सर्विस चार्ज (5)	अधिभार (6)	कुल योग (7)	समाधिक छूट @ 10% (8)	(9)
2022			1777707		0	0	7333043	733304	6699739
2023	5555336		1777707		0	0	7333043	733304	6699739
वकाया	0		0		0	0	0	0	0
योग	5555336		1777707		0	0	7333043	733304	6699739

Kindly register your mobile number for bill alert 8/14/2022 Go for online payment: www.jalkalkanpur.in

जलकल विभाग नगर निगम, बेनाझावर रोड, कानपुर- 208002
 DIRECTOR H.B.T.I. KANPUR

जलकर, सीवर कर / न्यूनतम प्रभार / सर्विस चार्ज / अन्य शुल्क का बिल कम नोटिस जल ही जीवन है
 जल बचायें

जोन नं० 6 वार्षिक मूल्यांकन 800910 मीटर साइज / 15 बिल तिथि 16-07-2022 बिल सं० 423
 Sewer Seats: 0

वार्ड सं 16 खाता नं० धरेलू/अधरेलू/मिश्रित निर्माण / किरायेदारी ND3 देय तिथि 16-08-2022 प्रकार JKK6DLPA00160212318001
 PID No.

अवधि	जलकर (1)	न्यूनतम प्रभार जल (2)	सीवर कर (3)	न्यूनतम प्रभार सीवर (4)	सर्विस चार्ज (5)	अधिभार (6)	कुल योग (7)	समाधिक छूट @ 10% (8)	(9)
01.04.2022 से 31.03.2023	100114		32036		0	0	132150	13215	118935
वकाया	0		0		0	0	0	0	0
योग	100114		32036		0	0	132150	13215	118935

Kindly register your mobile number for bill alert 8/14/2022 Go for online payment: www.jalkalkanpur.in

अधिभार- (1) जलकर सीवर कर न्यूनतम प्रभार में जो अधिक है उसे ही योग में लिया गया है।
 (2) अधिभार विलगत वर्ष की वकाया धनराशि पर लगाया गया है (3) भूल चूक लेनी देनी।
 नोट : आवश्यक निर्देश एवं सूचनाओं की प्रतियाँ पृष्ठ पर देखें।

ह० बिल सहायक ह० जांचकर्ता ह० अधिकृत अधिकारी

किया जायेगा जब कि
सूनातम प्रभार देय हो

798



जल कल विभाग, नगर निगम कानपुर


फोन : 0512-2548213, कन्ट्रोल रूम : 2549018



द सं 36

73

	वर्तमान	अवशेष	खाता नं०	दिनांक 31/03/2021	
प्रभार जल मूल्य	3,10,65,765		उपभोक्ता नं० 4583/99	वार्ड सं०	
र कर			जोन नं० 6	अवधि	नकद/चेक सकरने पर मान्य
सूनातम प्रभार सीवर			चेक नं० 554184	बैंक का नाम	बैंक हेतु मान्य
जल मूल्य			Axis Bank	श्री पंच० वी० टी० आई०	30/3/21
अग्रिम जल मूल्य			मकान नं० 1/303, 304, 305 C, D, E	रुपया (शब्दों में)	तीन करोड़ अक्षर सठ लाख
अधिभार			ज.म. 305 B, 305	प्राप्त किया।	पंचदश हजार मात्र 10 पैसे
उचिष्ट जल परिव्यय					
विकास शुल्क					
मीटर जमानत/किराया					
परीक्षण शुल्क					
जमानत					
अन्य					
कुल योग अंको में	3,10,65,765				



हो 2
अधि० वसूलीकर्ता का नाम

J.K.N.K. 350, FEB, 2021 यह रसीद स्वामित्व का अधिकार नहीं प्रदत्त करती है। यह रसीद विधिक उपयोग के लिये मान्य नहीं है।

जलकल विभाग - नगर निगम, कानपुर

पुस्तक सं० 4709 बेनाझाबर रोड, कानपुर-208 002 प्रतिपर्ण सं० 7

उपभोक्ता नं० — खाता नं० 707 दिनांक 13/01/22

जल कर	6251879-00	चेकों की अभिस्वीकृति
सीवर कर		अवधि 31.3.20 से 10.04.20 तक
जल मूल्य		चेक नं० 000393 दिनांक 13/01/22
मीटर किराया		बैंक का नाम कैंडी सी० कैंडी बैंक
न्यू प्र० जल मू०		नाम श्री HBTU नवाबगंज
न्यू प्रभार सीवर		मकान नं० 1/303, 304, 305, 305A, 305B
विकास शुल्क		रुपया (शब्दों में) 305 C D E F G नवाबगंज
अधि भार		HPA/267 लक्ष्मण प्रसाद किया।
अग्रिम जल मूल्य		नगर निगम कानपुर
अन्य		उत्तर नगर निगम कानपुर
कुल योग	6251879-00	ह० अधिकृत वसुली कर्ता

नोट : इसे जलकल विभाग के दफ्तों के भुगतान के निमित्त दी गई धनराशि की रसीद नहीं समझना चाहिए। चेक भुगतान के पश्चात यथा नियम रसीद प्राप्त कर ली जाये। इस रसीद से उपभोक्ता के खाते में पोस्टिंग नहीं की जायेगी।



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

**Application Regarding extension of Water Tax and Sewer Tax
Bill's Payment Date (Year 2022-23).**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन-6
जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

पत्रांक:- जलकल / 588 / अ0अ06 / 2021-22

दिनांक- 10-1-22

सेवा में,

वित्त नियंत्रक
हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी
कानपुर।

विषय:- वर्ष 2021-22 के जलकर व सीवरकर के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आप से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार आप के द्वारा जलकर व सीवरकर के बिल में छूट का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में आग्रह किया गया है। आपके द्वारा अपेक्षित बिल की देय तिथि 15-01-2022 तक छूट कर दी गयी है।

कृपया बिल का भुगतान नियत तिथि तक करने का कष्ट करें ताकि आप छूट का लाभ प्राप्त कर सकें।

संलग्नक- जलकर व सीवरकर के बिल।

बैंक का नाम:- पंजाब नेशनल बैंक

ब्रान्च का नाम:- कानपुर जल संस्थान

खाता सं:- 2340010100001062


IFS CODE- PUNB0458700

ब्रान्च कोड- 458700

माईकरकोड- 208024050

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
2. बिलिंग प्राभारी जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
3. सम्बन्धित वसूलीकर्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।


अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

Water Tax and Sewer Tax Payment Bill

जलकल विभा नगर निगम, बेनाझाबर रोड, कानपुर- 208002 जलकर, सीवर कर/ न्यूनतम प्रभार/ सर्विस चार्जेज/ अन्य शुल्क का विल कम नोटिस जल ही जीवन है
DIR. OF H.B.T.I. KANPUR Sewer Seats: 0 जल बचाये

जो नं० 6 वार्षिक मूल्यांकन 44442684 मीटर साइज/ 15 बिल तिथि 15-12-2021 बिल सं० 797
 04,305,305A,305B,305CDEFG, NAWAB NDB देय तिथि 15-01-2022 प्रकार
GANJ. KANPUR वार्ड 45 खाता नं० परेलु/अपरेलु/मिश्रित निर्माण / किरायेदारी PID No. JKK60001004507322670

अवधि	जलकर (1)	न्यूनतम प्रभार जल (2)	सीवर कर (3)	न्यूनतम प्रभार सीवर (4)	सर्विस चार्जेज विकसल शुल्क /अन्य शुल्क (5)	अधिभार (6)	कुल योग 1+2+3+4+5+6	समायिक छट @ 10% (8)	(9)
01.04.2021 से 31.03.2022	5555336		1777707		0	0	7333043	733304	8599739
बकाया	0		0		0	0	0	0	0
योग	5555336		1777707		0	0	7333043	733304	8599739

Kindly register your mobile number for bill alert 1/7/2022
 अधिकार: (1) जलकर सीवर कर न्यूनतम प्रभार में जो अधक है उसे ही योग में लिया गया है।
 (2) अधिभार विगत वर्ष की बकाया धनराशि पर लगाया गया है (3) भूल चूक लेनी देनी।
 नोट: आवश्यक निर्देश एवं सूचनाये पीछे पृष्ठ पर देखें।

ह० बिल सहायक

जलकल विभा नगर निगम, बेनाझाबर रोड, कानपुर- 208002 जलकर, सीवर कर/ न्यूनतम प्रभार/ सर्विस चार्जेज/ अन्य शुल्क का विल कम नोटिस जल ही जीवन है
DIRECTOR H.B.T.I. KANPUR Sewer Seats: 0 जल बचाये

जो नं० 8 वार्षिक मूल्यांकन 800910 मीटर साइज/ 15 बिल तिथि 15-12-2021 बिल सं० 425
 267, LAKHAN PUR BLOCK-A, KANPUR NDB देय तिथि 16-01-2022 प्रकार
 वार्ड 18 खाता नं० परेलु/अपरेलु/मिश्रित निर्माण / किरायेदारी PID No. JKK80LPA00180212318001

अवधि	जलकर (1)	न्यूनतम प्रभार जल (2)	सीवर कर (3)	न्यूनतम प्रभार सीवर (4)	सर्विस चार्जेज विकसल शुल्क /अन्य शुल्क (5)	अधिभार (6)	कुल योग 1+2+3+4+5+6	समायिक छट @ 10% (8)	(9)
01.04.2021 से 31.03.2022	100114		32036		0	0	132150	13215	132150
बकाया	100114		32036		0	0	132150	0	132150
योग	200228		64072		0	0	264300	26430	264300

Kindly register your mobile number for bill alert 1/7/2022
 अधिकार: (1) जलकर सीवर कर न्यूनतम प्रभार में जो अधक है उसे ही योग में लिया गया है।
 (2) अधिभार विगत वर्ष की बकाया धनराशि पर लगाया गया है (3) भूल चूक लेनी देनी।
 नोट: आवश्यक निर्देश एवं सूचनाये पीछे पृष्ठ पर देखें।

ह० बिल सहायक

for online payment: www.jkkkanpur.in



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

Application Regarding Payment of Water Tax and Sewer Tax Bills up to Rupees 988201.00 for 10% discount(Date-11-10-19).

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन-6
जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

पत्रांक - जलकल / 1436 / 310306 / 19-20

दिनांक - 11-10-19

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
एचओडीओआई विश्वविद्यालय
कानपुर नगर।

विषय: वर्ष 2019-20 के जलकर/सीवरकर एवं डिस्पोजल के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, संलग्न बिल के अनुसार आपके विभाग से सम्बन्धित परिसर पर वर्ष-31-03-2020 तक का रू०-988201.00 (नौ लाख अठ्ठासी हजार दो सौ एक मात्र) भुगतान हेतु बिल संलग्न है। उक्त का भुगतान समयानुसार करने का कष्ट करे, ताकि 10% सामयिक छूट का लाभ प्राप्त कर सके, साथ ही अवगत कराना है, कि जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का बैंक खाता विवरण निम्न है।

जलकर व सीवरकर रूपया- 693481.00

कालोनी- 97620.00

डिस्पोजल- 197100.00

योग:- 988201.00

बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक
ब्रान्च का नाम- कानपुर जल संस्थान
खाता सं- 2340010100001062
IFS CODE- PUNB0458700
ब्रान्च कोड- 458700
माईकरकोड- 208024050

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
2. विलिंग प्रामाणी जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
3. सम्बन्धित वसूलीकर्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

137/NP/19.20

10/12/19

paid

Water Tax and Sewer Tax Payment Bill

मेनाझाबर रोड, कानपुर- 208002
जलकर, सीवर कर/ न्यूनतम प्रभार/ सर्विस चार्जेज/ अन्य शुल्क का बिल कम नोटिस
जल ही जीवन है
जल बचायें

मालिक का नाम KANPUR, KANPUR	जोन नं०	वार्षिक मूल्यांकन	मीटर साइज /	बिल तिथि	बिल सं०	
	5		15	01-03-2020	703	
	वार्ड सं	खाता नं०	घरेलू/अघरेलू/मिश्रित	देय तिथि	प्रकार	
	3			01-03-2020		
			नामांक / किरायेदार			
					14187 KNO00100034373001	
तम प्रभार जल	सीवर कर	न्यूनतम प्रभार	सर्विस चार्जेज	अधिभार	कुल योग	सर्वाधिक वृद्ध @ 10%
(2)	(3)	(4)	विकास शुल्क / अन्य शुल्क	(6)	(7)	(8)
			(5)			(9)
1,170		157	0	0	1627	183
0		0	0	0	0	0
1,170		157	0	0	1627	183

यदि बिल में कोई त्रुटि है तो उसे ही योग में लिया गया है।
 धनराशि पर लगाया गया है (३) भूल चूक लेनी देनी।
 5 पर देखें।

9/24/2019

ह० बिल सहायक

Go for online payment: www.jalkankapur.in
 ह० जांचकर्ता

ह० अधिकृत अधिकारी



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : http://www.hbtu.ac.in, Email : vc@hbtu.ac.in

100 YEARS
1921 - 2021

Application Regarding Payment of Water Tax and Sewer Tax Bills up to Rupees 988201.00 for 10% discount(Date-11-10)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन-6
जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

पत्रांक - जलकल / 1436 / अ0अ06 / 19-20

दिनांक- 11-10-19

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
एच0बी0टी0आई विश्वविद्यालय
कानपुर नगर।

विषय: वर्ष 2019-20 के जलकर/सीवरकर एवं डिस्पोजल के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, संलग्न बिल के अनुसार आपके विभाग से सम्बन्धित परिसर पर वर्ष-31-03-2020 तक का रू0-988201.00 (नौ लाख अठ्ठासी हजार दो सौ एक मात्र) भुगतान हेतु बिल संलग्न है। उक्त का भुगतान समयानुसार करने का कष्ट करे, ताकि 10% सामयिक छूट का लाभ प्राप्त कर सके, साथ ही अवगत कराना है, कि जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का बैंक खाता विवरण निम्न है।

जलकर व सीवरकर रूपया- 693481.00
कालोनी- 97620.00
डिस्पोजल- 197100.00
योग:- 988201.00

बैंक का नाम:- पंजाब नेशनल बैंक
ब्रान्च का नाम:- कानपुर जल संस्थान
खाता सं:- 2340010100001062
IFS CODE- PUNB0458700
ब्रान्च कोड- 458700
माईकरकोड- 208024050

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित अवर अभियन्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
2. विलिंग प्रामासी जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
3. सम्बन्धित वसूलीकर्ता जोन-6 जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

Red
अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

137/NP/19, 20

10/12/19

paid

Water Tax and Sewer Tax Payment Bill

जलकल विभाग

नगर निगम, बेनासाबर रोड, कानपुर- 208 002

जलकर, सीवर कर/ न्यूनतम प्रभार/ सर्विस चार्जेज/ अन्य शुल्क का बिल कम नोटिस
Sewer Seats

जल ही जोवन है
जल बचाये

नाम व पता DIRECTOR H.B.T.I. KANPUR LPA 267 LAKHAN PUR BL GCK-A, Kanpur		जोस नं०	वार्षिक मूल्यांकन 200910	मीटर साइज/संदर्भ 15	बिल तिथि 01-08-2018	विल नं० 470			
		वार्ड सं	खाता नं०	घरेलू/अघरेलू/मिश्रित NDJ	देय तिथि 01-09-2018				
				निर्माण / किरायेदारी	विच्छेदन तिथि JKK80	PACC12021731600			
अवधि	जलकर 1 (1)	न्यूनतम प्रभार जल 2 (2)	सीवर कर 3 (3)	न्यूनतम प्रभार सीवर 4 (4)	सर्विस चार्जेज किकास शुल्क /अन्य शुल्क (5)	अधिभार (6)	कुल योग 1+2+3+4+5+6 (7)	सर्वाधिक कूट @ 10% (8)	शुद्ध देय (9)
01.04.2018 से 31.03.2019	100.114		32.036		0	0	132.150	132.15	112935
वकाया	0		0		0	0	0	0	0
घं.	100.114		32.036		0	0	132.150	132.15	112935

अधिभार- (1) जलकर सीवर कर न्यूनतम प्रभार में जो अधिक है उसे ही योग में लिया गया है।
(2) अधिभार विगत वर्ष की वकाया धनराशि पर लगाया गया है (3) भूल चूक लेनी देनी।
नोट - आयलक निर्देश एवं सवनाये धीरे धीरे पत्र पर करें।

11/22/2018

Online Payment www.kanpur.nic.in

(Signature)
अधिकारी



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत
HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY
NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA
(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

100 YEARS
1921 - 2021

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : vc@hbtu.ac.in

Harcourt Butler Technical University, Kanpur, Waste Management Policy

Waste Management Policy



Harcourt Butler Technical University, Kanpur

Kanpur

1. Summary

This document outlines the University's Waste Management Policy. It details the university's arrangements to minimise solid and liquid waste production, improve their segregation, collection, transport, safe disposal, recycling, wastewater treatment, reuse and safe disposal of effluent generated in the university. In the context of this policy, wastes include: domestic, institutional waste (paper, plastic, recyclable materials (paper, card board, food waste, glass, metals), leaves, construction, e-waste, plastics, hazardous waste and wastewater. The policy shall inter alia include technology options for waste to compost and waste to energy with due consideration for environment.

2. Waste Management Policy Statement

The University is committed to manage waste produced in both, east and west campuses of the university in an environmentally safe, cost-effective and timely manner in line with current environmental legislation. The university shall comply with the Waste Management Rules as prescribed by the state of Uttar Pradesh (UP) and the guidelines of the Kanpur Nagar Nigam (KNN) issued from time to time.

3. Scope

The scope of this policy shall cover the solid (including papers, plastics, e-waste, hazardous waste) and wastewater generated in the east and west campuses of the university. It shall be applicable to all employees (faculty and staff) and their family members residing in the campus, students, guests of the university and others visiting the campus.

4. Introduction

This Waste Management Policy forms a part of the HBTU's Strategic Plan. The policy shall aim to ensure that all waste (solid, wastewater, e-waste) generated within the university is managed and disposed of safely and efficiently in accordance with the environmental legislation; and to demonstrate the university's commitment to implement and deliver the best waste management practices- reduce, recover, recycle, disposal; and thereby reducing the negative environmental impacts arising from the waste. The Policy highlights the need to consider the environmental impacts when making any procurement decisions or construct or refurbish buildings. The primary objectives of the policy are to ensure cleanliness in the HBTU East and West Campus for healthy, hygienic and liveable environment. The University is committed to implementing an effective and responsible waste management process that meets all the environmental regulations for sustainable society.

5. The Waste Hierarchy

The University shall have adequate arrangements, facilities, infrastructure, requisite logistics and disposal/recycling infrastructure and all students, staff and families of staff members shall ensure to make use of these facilities in order to help dispose off and recycle as much waste as is possible. The waste hierarchy can be represented in form of a pyramid shown in Fig.1.




Fig.1.Waste Hierarchy Pyramid (from the most favourable (top) to the least (bottom) Waste minimization at source (prevention)

Fig. 1 highlights that waste minimization shall be the first step which should be practised for less generation of waste. This may be achieved by dissemination of information about waste reduction and segregation at source, collection followed by ensuring its transport and disposal by technological options within the university or as per the arrangement made by Kanpur Nagar Nigam. Promotion of reusable products shall be carried out in the university to reduce the waste generation- it shall include; paper, glass, cardboard, leaves/grass of plants, construction/demolition waste and other non-hazardous waste etc. The hazardous wastes generated in the university premises shall be disposed of in an environment friendly manner by taking adequate support of the State Pollution Control Board or registered firms adept at handling of hazardous wastes. In simple terms, the HBTU Kanpur Waste Management Policy shall be based on the following principles:

- Reduction and reuse at source
- Effective segregation at source
- Waste recycling:
- Waste to composting:
- Waste-to-Energy:
- Waste disposal:

6. Plastic Waste Reduction

The University shall recognise the adverse impact of plastic waste production and disposal. Plastic pollution can have a harmful impact on the water environment and thus the University shall seek to reduce plastic use and wastage on campus. The following initiatives shall be adopted:

- a) Single-use plastics in catering (food packaging, disposable coffee cups, cutlery) shall be replaced with compostable catering supplies in the university canteen and other cafes in order to reduce plastic waste on campus.
- b) Reusable cups shall be made available to the university staff and students to reduce single-use disposable cup wastage.
- c) Conferencing and other events shall make use of reusable glasses to serve water, thus eliminating waste from used plastic bottled water.
- d) Water coolers/RO Plants/Aqua guards shall be installed throughout the campus for use by students and staff to encourage bottle reuse.

7. Policy Targets

Specifically, the university targets that by the year 2023,

- a) the University shall safely dispose entire solid and liquid waste produced in the campus (along with recovery, gas generation, cost recovery etc),
- b) shall stop the use of 'single use' plastics on campus using a combination of alternative materials,
- c) ban on use/sale of plastic bottled water on campus
- d) recover and ensure proper disposal of e-waste
- e) treat the household/institutional waste water produced in a small capacity wastewater plant before discharging into the public sewers, using the treated effluent for horticulture and effective electronic waste management.

8. Roles and Responsibilities

For effective implementation of the university's waste management policy, the roles and responsibilities of following various stakeholders shall be as under:

a) Nodal officer, Waste Management Policy

The Pro-Vice Chancellor or his/her nominee shall be the Nodal Officer and he/she shall have the overall responsibility to ensure the compliance of the waste management policy. He/she shall have to coordinate all the related activities and ensure the installation and logistics support for collection, segregation, transport, treatment, disposal and reuse of solid and liquid waste generated in the university.

b) Heads of Departments shall be responsible for ensuring,

- i) Collection and segregation of papers, plastic, card boards, laboratory waste, hazardous waste in their respective departmental.
- ii) Ensure segregation, safe storage and disposal of hazardous waste in accordance with relevant legislation in their respective department.
- iii) Identification of competent/trained personal to implement the arrangements for management of hazardous waste.
- iv) All wastewater infrastructure (toilets, urinals, sinks in laboratories etc) and other related appurtenances in their respective departments are in working condition so as to ensure smooth flow of sewage/wastewater to the sewers.

c) Class Representative and Students of the class

The Class Representative shall be responsible for ensuring the cleanliness of the class rooms, laboratories, corridors, amenities and hostels and advise all students not to through litter, plastic and other waste. In case of any issue related to housekeeping, they shall report immediately to the concerned Head of the department or directly to the concerned staff in the department.

d) Students

All students of the university shall ensure cleanliness of their respective classrooms, laboratories, streets, corridors, amenities and hostels in the campuses. In case of any issue related to housekeeping, they shall report immediately to the Class Representative or the Warden or directly to the concerned staff in the department/hostel.

e) Dean of Student Welfare (DSW)

The DSW shall ensure and coordinate the cleanliness of all the hostels and compliance of this Waste management policy through the respective wardens.

f) Hostel Wardens

- i) The wardens shall ensure the cleanliness of all the hostels and compliance of this Waste management policy.
- ii) They shall ensure that all treatment/disposal arrangement installed in their respective hostels are operational all the time.
- iii) They shall ensure that all the wastewater infrastructure (toilets, urinals, sinks in laboratories etc) and appurtenances in their respective hostels are in working condition so as to ensure smooth flow of sewage/wastewater to the sewers.

g) Professor In charge, Civil Maintenance

He/she shall be responsible for arranging and implementing all possible infrastructure and logistics needed for ensuring full compliance of the policy. This infrastructure/includes; bins, brooms, wipers/moppers, phenyl/disinfectant, vehicle/trolley to transport the waste (in both campuses), workers, compost plant, landfill, safety of workers and Liaoning with the vendors/contractors/Kanpur Nagar Nigam etc. He/she shall also be responsible for arranging O&M/AMC of all waste collection/transport and disposal infrastructure.

h) Head, Mechanical Engineering

He/she shall ensure arrangement for installing the waste to energy plant- in form of biogas/compost plant, incinerator, boilers etc including the requisite designs of the same in line with the environmental legislations.

i) Head, Computer Science and Engineering

He/she shall ensure identification, collection, segregation, reuse and safe disposal of e-waste generated in the university

j) Head, Civil Engineering

He/she shall ensure the coordination of safe disposal of wastewater, solid waste (including plastics, paper, card board etc) generated in the university including the requisite designs in line with the environmental legislations.

k) Head, Chemical Engineering Department

He/she shall ensure the coordination of safe disposal of hazardous waste generated in the university in line with the environmental legislations.

l) Every waste generator

He/she shall,

- i) Segregate and store the waste generated by them in three separate bins meant for biodegradable, non-bio-degradable and hazardous wastes and handover the wastes to authorised waste pickers/waste collectors as per the directions or notification by the university/KNN from time to time.
- ii) wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the pouches provided by the manufacturers or in suitable wrapping material as instructed by the university and place the same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste/dispose of in the incinerators installed in their respective girl hostels.

- iii) Store the horticulture and garden waste generated from university premises in own premises and dispose of as per the directions of the KNN issued from time to time.
- iv) not throw, burn or bury the solid waste generated, in classrooms, offices, laboratories, corridors, streets, roads, canteen etc in open drains/sewers.
- v) not organise an event or gathering of more than one hundred persons in the university auditorium, Shatabdi Bhawan, Seminar halls etc without informing the concerned department head and Maintenance section at least three working days in advance. The organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of the same to the waste collector.
- vi) work in close partnership with the university/KNN to ensure segregation of waste at source as prescribed, facilitate collection in separate-coloured bins, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers.

9. Operational Methodology

The precise methodology can be categorized into two:

Primary Collection

The university shall,

- a) ensure source segregation of waste, to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. This shall be done at the level of each academic department, laboratories, hostels, administrative block, main building, canteen, hostel mess etc.
- b) Shall ensure three coloured bin system (for Green Waste, Dry Waste, Hazardous Waste).
- c) make arrangement for door-to-door collection of segregated solid waste from all households including hostels and academic area.
- d) establish a system to identify organisations of waste pickers or informal waste collectors to facilitate their participation in solid waste management.

Secondary Collection

In this, the university shall,

- a) ensure three bins at every Secondary Collection Point.
- b) setup secondary storage facilities in east and west campuses of the university, with sufficient space for sorting of recyclable materials to enable informal or authorised waste pickers and waste collectors to separate recyclables from the waste.
- c) provide easy access to waste pickers and recyclers for collection of segregated recyclable waste such as paper, plastic, metal, glass, and textile from the source of generation or from material recovery facilities.

Transportation of Waste

In this, the university shall,

- a) transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility.
- b) make arrangement for in-house and on-site processing of such waste.
- c) transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility;
- d) ensure transport of waste in segregated form in covered vehicles.

Collection, transport and treatment of Wastewater and safe disposal of treated effluent

In this, the university shall,

- a) facilitate the construction, operation and maintenance of requisite infrastructure for collection, transport of wastewater,
- b) ensure safe disposal of treated sludge.
- c) ensure safe disposal of treated effluent or re-use the same for gardening and horticulture purpose within the university.

Specific tasks be taken on immediate basis.

The university shall implement the following on immediate basis:

- Proper collection and Segregation of domestic and institutional waste
- Timely transportation.
- Daily Road sweeping-of roads, class room, departments and hostels.
- 100% collection at fixed time 365 days in a year
- Penalize the polluters/defaulters through a monetary fine.
- Ban the sale and use of plastic carry bags (of thickness less than 50 microns) within the university premises.
- Organize effective “Information, Education and Communication (IEC)” and “Capacity Building” programmes.

10. Capacity Building and Training through IEC (Information, Education and Communication)

The success of any Waste Management Plan depends upon the extent of public/community participation. Thus, the university shall undertake capacity building by training students, housewives and other staff of the university. It shall also organize Information, Education and Communication (IEC) activities. The main objectives of IEC shall be to make people understand. Specifically, these includes,

- The concept and need for segregation at source
- The need to waste storage at source in separate receptacles - one for bio degradable and another for recyclable.
- The role of citizens in primary collection of waste from the household and handing over to waste collectors,
- The need to use litter bins on road sides and public places.
- The impact of solid waste on public health and the environment

11. Implementation Committee

For effective implementation of the WMP, there shall be a Waste Management Policy Implementation Committee. The constitution of the same shall be as follows:

- a) Nodal Officer, Waste Management Policy
- b) All Heads of Departments
- c) Dean of Student Welfare
- d) All Hostel wardens
- e) Professor In charge, Civil Maintenance
- f) Head, Mechanical Engineering
- g) Head, Computer Science and Engineering
- h) Head, Civil Engineering
- i) Head, Chemical Engineering
- j) Dean, School of Chemical Technology